



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936

No. 48]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015/MAGHA 3, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 50(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड-कांस्टेबल (अनुसचिवीय), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1).—इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (योधक अनुसचिवीय) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उपनिरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में:-

(क) सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) के अधीन स्तंभ (12) में, "उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट (कार्यालय/अनुसचिवीय)" भाब्डों और कोश्टकों के स्थान पर, "आशुलिपिक काडर के उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट" भाब्द रखे जाएंगे, और

(ख) स्तंभ (1) में हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने, निम्नलिखित भाब्द और कोश्टक "हैड कांस्टेबल (योधक अनुसचिवीय)" रखे जाएंगे।

[फा. सं. I-12012/2/2012-संगठन (भाग-2)]

हरीश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक-1)

टिप्पणः—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 81(अ) तारीख 14 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd January, 2015

G.S.R. 50(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial), Group ‘C’ posts Recruitment Rules, 2013, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Combatised Ministerial), Group ‘C’ posts Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial), Group ‘C’ posts Recruitment Rules, 2013:—

- (a) against serial number 1, relating to the post of Assistant Sub-Inspector (Stenographer) in column (12) under the heading ‘Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering the confirmation) for the words and bracket “Deputy Commandant or Assistant Commandant (Office/Ministerial)”, the following words “Deputy Commandant or Assistant Commandant of stenography cadre” shall be substituted, and
- (b) against serial number 2, relating to the post of Head Constable (Ministerial) in column (1), the following words and bracket “Head Constable (Combatant Ministerial)” shall be substituted.

[F. No. I-12012/ 02//2012-Org (Part-2)]

HARISH CHANDER, Director (Pers-I)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 81(E), dated the 14th February, 2013.